



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 375]  
No. 375]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 23, 1983/आश्विन 1, 1905  
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 1983/ASVINA 1, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
अधिसूचना

सं० 270/83-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1983

सां०का०नि० 741 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क  
अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की  
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,  
अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना  
आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975  
का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 85 के अन्तर्गत  
आने वाले कार्बन इलेक्ट्रोड ब्लॉक ग्रीन (ग्रीन ब्लॉक या ग्रीन  
इलेक्ट्रोड) को, जब उस ग्रीफाइट इलेक्ट्रोड के बानमार्फ  
के लिए भारत में आयात किया जाए,—

- (1) उक्त पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रह-  
णीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है  
जितना मूल्य के 30 प्रतिशत की दर पर संगणित  
रकम से अधिक है; और

- (2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3  
के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त अनिश्चित  
शुल्क से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 30 सितम्बर, 1984 तक, जिसमें  
यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[फा०सं० 355/102/81-सी शु०I]

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)  
NOTIFICATION  
No. 270/83-CUSTOMS

New Delhi, the 23rd September, 1983

G.S.R. 741(E).—In exercise of the powers  
conferred by sub-section (1) of section 25 of the  
Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central  
Government, being satisfied that it is necessary in  
the public interest so to do, hereby exempts car-  
bon electrodes blocks green (green blocks or  
green electrodes), falling under Chapter 85 of the  
First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975

(51 of 1975), when imported into India for the manufacture of graphite electrodes, from —

(i) so much of that portion of the duty of customs which is leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of 30 per cent ad valorem; and

(ii) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act.

This notification shall be in force upto and inclusive of the 30th day of September, 1984.

[F. No. 355|102|81-CUS-I]

सं० 271/83-सीमाशुल्क

सा०का०नि० 742 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 127/82-सीमाशुल्क, तारीख 1 मई, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 15 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“16. तेल कूप सीमेंट।”।

[फा०सं० 355/197/83-सोशु० 1]

एन० सासिधरन, अवर सचिव

#### No. 271|83-CUSTOMS

G.S.R. 742(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 127|82-Customs, dated the 1st May, 1982, namely :—

In the table annexed to the said notification, after Serial No. 15 and the entry relating thereto, the following Serial No. and entry shall be inserted, namely :—

“16. Old Well Cement.”.

[F. No. 355|197|83-CUS.I]

N. SASIDHARAN, Under Secy.